

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 80]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 मार्च 2024—फाल्गुन 22, शक 1945

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2024

क्र.-एफ-01-05-05-0003-2024-छब्बीस-1 .- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन दिव्यांगजन के लिए पदों के चिन्हांकन के लिए समिति, एतद्द्वारा, अनुसूची-एक में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की स्थापना में, अनुसूची-दो में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिये आरक्षित पद चिन्हांकित करती है :-

अनुसूची "एक"

- (1) सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

अनुसूची- "दो"

दिव्यांगजनों के लिये चिह्नकित पदों की जानकारी

विभाग : सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

| पद की श्रेणी | पद/संघर्ष का नाम | सौचीय मर्तों के कुल स्वीकृत पद | सौचीय मर्तों के द्वारा भरे हुये पद | रिक्त पद (3-3(b)) | नियोजकजनों के लिये चिह्नकित पदों की कुल संख्या का कुल योग (6%) | दिव्यांगजनों हेतु चिह्नकित पद/भरे पद/रिक्त पदों की जानकारी | | | | | | | | | | रिक्त पदों की पूर्त कब तक की जायेगी | | | | | |
|--------------|--|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|--|--|--------|----------|---|--------|----------|--|--------|----------|--|-------------------------------------|--------|----------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| | | | | | | दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5 %) चिह्नकित पद | भरे पद | रिक्त पद | बहरे और कम सुनने वाले (1.5 %) चिह्नकित पद | भरे पद | रिक्त पद | लोकमोटर डिपेंडेंसिबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेबल पाल्सी, कुछ रोग मुक्त, रीनायन, एरिड, अर्दक, पीडित मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (1.5 %) चिह्नकित पद | भरे पद | रिक्त पद | ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सेन्सिटिव लर्निंग डिफिबिलिटी और मानसिक बीमारी और नहु-विकलांगता (1.5 %) चिह्नकित पद | | भरे पद | रिक्त पद | कुल योग (6+8+11+14) | कुल भरे पद (6+9+12+13) | कुल रिक्त पद (7+10+13+16) |
| 1 | | 3 | 3 (4) | 3 (b) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| पूर्तीय | कम्प्यूटर ऑपरटर सह सहायक ग्रैंड-5 (सिविली) | 427 | 0 | 427 | 26 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 26 | 0 | 26 | |
| | योग | 427 | 0 | 427 | 26 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 26 | 0 | 26 | |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज पुष्प, अपर सचिव.